

Class Notes

Class: छठवीं

Topic: पाठ-10
झाँसी की रानी

Subject: वसंत भाग-1

Date: 21.10.21

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर-

1. किनके सिंहासन हिल उठे थे ?

- अ. अंग्रेजी शासन
- ब. स्वदेशी राजवंशियों के
- स. मुगलों के
- द. अत्याचारियों के

उत्तर- ब. स्वदेशी राजवंशियों के

2. मुँहबोली बहन कैसी बहन होती है ?

- अ. सगी
- ब. चचेरी
- स. ममेरी
- द. धर्म

उत्तर- द. धर्म

3. लक्ष्मी बाई की आराध्य देवी कौन थीं ?

- अ. भवानी
- ब. भगवती
- स. भागीरथी
- द. भैरवी

उत्तर- अ. भवानी

4. वैभव से तात्पर्य किस व्यक्ति से है ?

- अ. लक्ष्मीबाई
- ब. गंगाधर राव
- स. नाना साहब
- द. अर्जुन

उत्तर- ब. गंगाधर राव

5. 'काली घटा' से क्या तात्पर्य है ?

- अ. घने काले बादल
- ब. निराशा के बादल
- स. घनघोर वर्षा
- द. घने काले केश

उत्तर- ब. निराशा के बादल

6. झाँसी का दीप किसे कहा गया है ?

- अ. गंगाधर राव को
- ब. लक्ष्मीबाई को
- स. डलहौजी को
- द. पेशवा को

उत्तर- अ. गंगाधर राव को

7. अंग्रेज़ भारत में क्या बनकर आए थे ?

- अ. शैतान
- ब. व्यापारी
- स. सैनिक
- द. शासक

उत्तर- ब. व्यापारी

8. वज्र - निपात किन पर हुआ था ?

- अ. नागपुर - कानपुर
- ब. बर्मा - सिंध
- स. सतारा - कर्नाटक
- द. मद्रास - हैदराबाद

उत्तर- ब. बर्मा - सिंध

9. 'कालगति' क्या होती है ?

- अ. समय का आना
- ब. समय का फेर
- स. समय का चक्र
- द. समय का रुकना

उत्तर- स. समय का चक्र

10. लक्ष्मीबाई को किसका अवतार कहा गया है ?

- अ. लक्ष्मी
- ब. दुर्गा
- स. वीरता
- द. वैभव

उत्तर- स. वीरता

अनुमान और कल्पना-

प्रश्न- 'झाँसी की रानी' कविता में किस दौर की बात है ? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है ?

उत्तर- कविता में सन 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की बात कही गई है। कविता से उस समय के बारे में पता चलता है कि सारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार था। अंग्रेज़ भारतीयों पर खूब अत्याचार कर रहे थे। जो भी देश में आज़ादी की लहर पैदा करने का प्रयास करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। उस समय स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध सभी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए

आत्म बलिदान देने को तैयार थे। अंग्रेज़ों ने फूट डालकर शासन करने की जो नीति अपनाई थी, उसका प्रभाव भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। उस समय कुछ स्त्रियाँ भी देश के स्वाधीनता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग ले रही थीं।

मूल्यबोध संबंधी प्रश्न -

प्रश्न- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? अपने विचार लिखिए।

उत्तर- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। उसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि को स्वर्ण से बढ़कर बताया गया है। जिस देश में हम जन्म लेते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं और योग्य बनते हैं, उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर देश सुरक्षित और संपन्न रहेगा, तो हम भी सुरक्षित और संपन्न रहेंगे। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए।